CIN No.: L31300DL1985PLC022737





#### **Bansal Wire Industries Limited**

#### Manufacturers of Steel Wires

22<sup>nd</sup> July, 2025

**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Scrip Code: 544209

**Trading Symbol: BANSALWIRE** 

Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015

Un-Audited Financial Results (UFRs) for the quarter ended on 30th June, 2025 Re:

Dear Sir/Madam.

Please find enclosed herewith copy of relevant pages of "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) newspapers dated 22<sup>nd</sup> July, 2025, publishing Statement of UFRs of the Company for the quarter ended on 30th June, 2025, approved by the Board of Directors at its meeting held on 21st July, 2025

This information is also being uploaded on the website of the Company i.e. www.bansalwire.com

You are hereby requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bansal Wire Industries Limited

Sumit Gupta Company Secretary and Compliance officer

Encl.: As Above

Regd. Office: F-3, Main Road, Shastri Nagar, Delhi-110052 Tel.: 011-46666750-59

## Very sad day for everyone: Attack survivors

**ASTHE BOMBAY** High Court on Monday acquitted all the 12 accused in the 2006 Mumbai train bomb blasts, survivors of the horrific terror attack reacted with deep shock and disappointment as their wait for closure and justice got longer.

Chirag Chauhan (40), a blasts survivorwho is now wheelchairbound and a practising CA, expressed dismay over the ruling. "Today is a very sad day for everyone! Justice got killed!!"he posted on X. Another survivor, Mahendra Pitale (52), a railway employee, opined that he does not agree with the verdict. "If those who have been acquitted are not the real culprits behind the serial blasts, then who are the real culprits and when will they be punished or will it also take 19 more years?"he asked. —PTI

# kotak®

KOTAK INFRASTRUCTURE DEBT FUND LIMITED

CIN: U65910MH1988PLC048450

Regd. Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Website: kidfl.kotak.com Telephone: +91-22-61660000

Extract of unaudited financial results for quarter ended June 30, 2025

Sr. No	Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Previous Year ende March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,877.81	3,230.91	14,898.85
2	Net Profit for the year (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,329.20	1,033.96	6,010.53
3	Net Profit for the year before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,329.20	1,033.96	6,010.53
4	Net Profit for the year after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	1,329.20	1,033.96	6,039.47
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,330.28	1,035.43	6,042.10
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 per share)	31,000.00	31,000.00	31,000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	27,336.83	20,999.90	26,006.55
8	Net Worth	58,336.83	51,999.90	57,006.55
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	129,427.64	94,391.15	107,000.49
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	- 1	-	_
11	Debt Equity Ratio	2.22	1.82	1.88
12	Earnings per Share (of ₹ 10 each) - Basic & Diluted	0.43	0.33	1.95
13	Capital Redemption Reserve	19.00	19.00	19.00
14	Debenture Redemption Reserve	- "	-	-

- 1) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on July 21, 2025.
- 2) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and the Company at www.kidfl.kotak.com
- 3) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com
- 4) Figures for the previous period / year have been regrouped wherever necessary to conform to current
- 5) These financial results have been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016 read with CIR/IMD/DF1/69/2016 dated August 10, 2016.

Place: Mumbai Date : July 21, 2025

e-Voting starts on

By order of the Board of Directors

For Kotak Infrastructure Debt Fund Limited



INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED CIN: L05190KA1921PLC036321

Regd. Office: First Floor, Subramanya Arcade, No.12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560 029. Telephone: +91 80 4685 5100 Fax: +91 80 4169 4399; Website: https://www.irco.com/en-in/invest

#### NOTICE OF 103RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Friday, August 8, 2025, at 9.00 am (IST)

e-Voting ends on	Tuesday, August 12, 2025, at 5.00 pm (IST)
[1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987]	at the 103" Annual General Meeting ("AGM") of Ingersoll - Rand (India) Limited (the
"Company") will be held	on Wednesday, August 13, 2025 at 12.00 noon (IST) through Video Conferencing

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA")

Circular") and SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 has permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conference/Other Audio Visual Means, without the physical presence of the Members at a common venue. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the Circular issued by MCA and SEBI, 103rd AGM of the Company is being conducted through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the notice of the AGM dated May 30, 2025 In compliance with the Circulars, the Notice along with the Annual Report of the Company for the financial year

ended March 31, 2025, has been sent only through e-mail, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agents (the RTA), i.e. MUFG Intime India Private Limited or the Depository Participant(s). The Notice and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 is made available on the websites of the Company viz. https://www.irco.com/enin/invest/trades-2024-25 and of the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com The Notice shall be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) viz. https://www.evoting.nsdl.com

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast of the AGM provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-Voting login credentials and selecting the EVEN

134508 for the AGM. Members are hereby informed that

- The business as set forth in the notice of the AGM dated May 30, 2025 will be transacted through remote e-voting or e-voting at the AGM.
- The remote e-voting period commences on August 8, 2025 (9.00 am IST) and ends on August 12, 2025 (5.00 pm IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 6, 2025 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after August 12, 2025 (5.00 pm IST). Once the
- not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so.

vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Only those Members/shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have

- shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum
- under Section 103 of the Act. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the
- Company as on the cut-off date of August 6, 2025. vii. The procedure for e-voting is mentioned in the e-mail sent by NSDL and also in the Annual Report 2024-25 in the Notes of the Notice dated May 30, 2025, convening the AGM.
- viii. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. August 6, 2025 may obtain a User ID and
- Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in Facility of joining the AGM through VC/OAVM shall open 30 minutes before the scheduled time for the AGM and will be available for Members on first come first served basis. The facility for joining the AGM shall close at the expiry of 15 minutes after the scheduled time or once the capacity is filled, whichever is earlier.
- The Board of Directors has appointed Mr. K. Natesh, Practicing Company Secretary, Bengaluru as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The consolidated results i.e. remote e-voting & e-voting at AGM along with the Scrutinizer's report will be communicated not later than 48 hours from the conclusion of the AGM to the Stock Exchanges where the

Company's shares are listed and will also be displayed on the Company's website https://www.irco.com/en-in/invest Any query or grievance connected with the e-voting can be addressed to Ms. Prajakta Pawle. Assistant Manager, NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower

Parel, Mumbai - 400 013. E-mail: evoting@nsdl.co.in Toll Free No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. As the AGM is being conducted through VC/OAVM, the Members are encouraged to express their views / send their queries well in advance for smooth conduct of the AGM before 5.00 PM (IST) on Friday, August 8, 2025 mentioning their names, folio numbers/demat account numbers, e-mail addresses at Pramod.hegde@irco.com and only such questions/queries received by the Company till the said date and time shall be considered and responded during the AGM.

By order of the Board of Directors For INGERSOLL - RAND (INDIA) LIMITED

P. R. SHUBHAKAR Chief Financial Officer and Company Secretary

Date: July 21, 2025 Note:

IN TERMS OF THE MCA CIRCULARS AND SEBI CIRCULARS, THE REQUIREMENT OF SENDING PROXY FORMS TO HOLDERS OF THE SECURITIES AS PER PROVISIONS OF SECTION 105 OF THE COMPANIES ACT 2013 READ WITH REGULATION 44(4) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, HAS BEEN DISPENSED WITH. THEREFORE, THE FACILITY TO APPOINT PROXY BY THE MEMBERS WILL NOT BE AVAILABLE AND CONSEQUENTLY, THE PROXY FORM AND ATTENDANCE SLIP ARE NOT ANNEXED TO THE NOTICE CONVENING THE 103" AGM OF THE COMPANY.

#### TERRORATTACK KILLED 189 IN 2006

# Mumbai train blasts case: All 12 acquitted

**OMKAR GOKHALE** Mumbai, July 21

**THE BOMBAY HIGH** Court on Monday set aside the 2015 verdict of a special court that had awarded death sentence to five accused in the 2006 Mumbai train, and refused the Maharashtra government's plea seeking confirmation of their sentences. Almost 10 years after they were convicted, the high court acquitted all 12 accused in the case, including seven sentenced to life imprisonment. A series of bombs ripped

coaches of the Western Suburban Railway around 6.30 pm on July 11,2006, killing 189 people and injuring 824. The Maharashtra Anti-Terrorism Squad investigated the case. Of the total 13 accused originally, one was acquitted by the Special Court under the Maha-

through seven local train

rashtra Control of Organised Crimes Act (MCOCA) on September 11, 2015, and later on September 30, sentenced five to death (one of whom died in prison during the pandemic),

and seven to life imprisonment. On Monday, the special

bench of Justices Anil S Kilor and Shyam C Chandak ordered the release of all the accused, if they were not required to be detained in any other case, and directed them to execute personal bonds of ₹25,000 each. "It is unsafe to reach the satisfaction that the appellant accused have committed the offence for which they have been convicted and sentenced. Therefore, the accused judgment and order of conviction and sentence are liable to be quashed and set aside," said the bench. Maharashtra chief minister

Devendra Fadnavis said the state will be appealing in the Supreme Court. "For all of us, this is a shocking verdict because the lower court has already given its verdict and it was all based on the chargesheet and other documents." Finding substance in the case of defence lawyers, the bench observed that the prosecution "utterly failed to establish the offences beyond a reasonable doubt against the accused on each count."

# Darling of the masses, and a fiery Opposition leader

**SHAJU PHILIP** Thiruvananthapuram, July 21

**ADOMINANT FIGURE** in Kerala politics for several decades and a founding member of the CPI(M), former chief minister Velikkakathu Sankaran Achuthanandan, popularly known as Comrade VS or simply VS, died at a hospital in Thiruvananthapuram on Monday. He was 101 years old. He had been away from public life since 2019, when he suffered a stroke. One month ago, he was admitted to a hospital following a cardiac arrest and had been on life support since then.

Achuthanandan was one of the 32 leaders of the undivided Communist Party of India to walk out in 1964 and form the Communist Party of India (Marxist). He served as Kerala chief minister from 2006 to 2011, and as Opposition leader for three terms -1991-1996, 2001-2006 and 2011-2016. In his political life spanning

eight decades, Achuthanandan became known as a relentless fighter. Starting from the pre-Independence period, his career has been closely interwoven with the socio-political history of modern Kerala. Apolitician shaped by strug-

gles and agitation, the Communist luminary donned different mantles in the Left movement



**ACHUTHANANDAN** 1923-2025

and society at large. At different points in his life, he has been an organiser of grassroots workers, an underground revolutionary, an election manager, his party's crowd-puller, a public interest litigant, an anti-corruption crusader, and a voice for green movements. He also maintained a streak of rebellion throughout his political life.

He was CPI(M) state secretary from 1980 to 1992, the period when the state settled into coalition politics. He also served as convener of the Left Democratic Front — the CPI(M)led alliance currently in power in Kerala — from 1996 to 2000.

Born on October 20, 1923, at Punnapra village in Alappuzha district, Achuthanandan lost his

mother, Accamma, when he was just four and his father, Sankaran, when he was 11. Soon after, he dropped out of class 7 and started working at his elder brother Gangadharan's tailoring shop, which regularly saw locals dropping in for informal chats on politics. Over the years, he developed an interest in politics himself and joined the Travancore State Congress. After he turned 17, he became a member of the undivided Communist Party of India (CPI). He had risen through the ranks to the leadership of the CPI. He became a member of the CPI State Committee in 1954, and three years later, was promoted to the State Secretariat.When the first Communist government took office in Kerala in 1957, Achuthanadan headed the party in the then-unbifurcated Kollam district, winning nine out of 11 Assembly seats in the elections. When the CPI was divided in 1964 as a fallout of the prolonged inner-party struggle over political strategy VS was one of the 32 national council members to walk out of the meeting, leading to the formation of the CPI(M). The others included Jyoti Basu, A K Gopalan, EMS Namboodiripad Harkishen Singh Surjeet, and E K Nayanar. During the Emergency, he was arrested and jailed for 21 months.

#### FROM THE FRONT PAGE

#### Titan to buy 67% in Damas

WEST ASIA, IN particular the GCC region, is a big market for jewellery retailers, given its size and presence of a large diaspora population as well as people of other nationalities, industry experts said. The market is estimated at ₹1.21 lakh crore in terms of size, growing at around 6% per annum. By 2033, it is likely to touch ₹1.8 lakh crore, according to industry estimates.

ellery retailers have traditionally had a strong presence in the GCC region, Titan's latest acquisition, via its wholly owned subsidiary Titan Holdings International FZCO, could increase competitive intensity, experts said. Venkataraman said that the company was stepping out of its diaspora focus and looking to tap people of other nationalities and ethnicities with the acquisition.

#### Key changes to I-T Bill ANOTHER IMPORTANT SUGcannot carry forward and set off

While Kerala-based jew-

GESTION of the panel, which has been accepted by the government, is to make the application of the General Anti-Avoid-Rules ance (GAAR) context-specific, rather than

indiscriminate. While the Section 98 of the I-T Act states that if a transaction is found to be designed primarily for tax avoidance, then the relevant tax benefit would be subject to review, but only after taking into consideration the "circumstances of the case." This clause is absent in the draft Bill. It would now be inserted, with the committee saying that GAAR should be judiciously applied.

Yet another important change proposed by the panel is with regard to the facility for carry-forward of losses of companies that are not substantially publicly held. Under Section 79 of the I-T Act, such companies

past losses if there was any change in shareholding during the year, unless the same shareholders held at least 51% of voting power on the last day of both the loss year and the previous year. The committee recommended an amendment to Clause 119 in the I-T Bill to allow carry-forward of losses and setoff even if the 51% shareholding is temporarily disrupted, as long as it is restored in subsequent years, Amit Maheshwari, Tax Partner, AKM Global, said. "This would preserve the

legislative intent of preventing misuse while ensuring fair treatment for companies whose shareholders remain ultimately liable to tax. The drafting of clause 119(3) shall be aligned with Section 79 of the Act to remove any ambiguity regarding the newly used term "beneficial owner" as the

same is not defined in the clause," the panel said. For house property, the panel suggested that the standard 30% deduction be calculated postdeduction of municipal taxes. Also, it said pre-construction interest deductions be made available even for let-out properties, and not just for selfoccupied ones. The committee also sug-

gested that the exemptions be made available to anonymous donations to religious-cumcharitable trusts from taxation as under the extant I-T Act, instead of only exempting donations to religious trusts (as proposed in the Bill). The panel's report focuses on enhancing legal clarity, ensuring taxpayer equity, and facilitating a smooth legislative transition. It also suggested modernising definitions such as "capital asset" and "infrastructure capital company".

## US team to visit India

A TEAM OF Indian negotiators returned from Washington last Saturday after four days of discussions from July 14-17 under the fifth round. In these five rounds, the US team has visited New Delhi twice while Indian officials have been to Washington twice. The sixth round of talks will come after the reciprocal tariffs on major trade part ners will be known which could provide a different direction to the negotiations, analysts said. The reciprocal tariffs are

slated to be in force from August 1 after two postponements since April 9. On April 2, US President Donald Trump had announced reciprocal tariffs on all its trade partners, and the rate of 26% was set for India. Since the announcement of reciproca tariffs, Trump has announced completion of trade deals with UK, Indonesia and Vietnam.



#### **BANSAL WIRE INDUSTRIES LIMITED**

Corporate Identity Number: L31300DL1985PLC022737

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025** 



**EBITDA** 

Consolidated



(Amount are in Rs. Million, unless otherwise stated) **Standalone** 

S. No.	Particulars	Quarter ended Year ended Quarter ended		Quarter ended		Quarter ended Year ended Quarter ended Year		Quarter ended Year ended Quarter ended		Quarter ended Year ended Quarter ended		Quarter ended Year ended Quarter ended		Quarter ended Year ended Quarter ended		Quarter ended Year ended Quarter ended		Quarter ended	
110.		30-Jun-25	30-Jun-24	31-Mar-25	30-Jun-25	30-Jun-24	31-Mar-25												
1	Total income from operations	9,416.29	8,182.34	35,166.14	9,130.70	6,778.27	32,164.82												
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	500.04	445.61	2,103.87	412.61	347.64	1,716.70												
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	500.31	444.81	2,102.50	412.87	347.73	1,716.79												
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	392.79	315.13	1,463.66	302.79	259.55	1,251.61												
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	392.30	313.73	1,460.83	300.55	257.51	1,247.29												
6	Equity Share Capital	782.78	637.27	782.78	782.78	637.27	782.78												
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			11,907.34			11,050.95												
8	8 Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) #																		
	Basic & Diluted	2.51	2.37	9.73	1.93	2.04	8.42												
	EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation &	744.55	622.43	2,782.13	612.32	466.94	2,194.80												

# Actual for the guarter, not annualised

Amortisation)

#### Note:

1 The above is an extract of the unaudited standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results for the quarter ended June 30, 2025 are available on the websites of the Stock Exchange(s) where the equity shares of the company are listed, i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of the company - www.bansalwire.com.

Place: Delhi Date: July 21, 2025



For Bansal Wire Industries Limited **Arun Gupta** 

Chairman and Whole Time Director DIN: 00255850

Registered and Corporate Office: F-3, Main Road, Shastri Nagar, Delhi-110052 Phone: 011-46666750, Email: Investorrelations@bansalwire.com, Website: www.bansalwire.com

New Delhi

epaper.financialexpress.com

# बिहार में 73.55 लाख से अधिक मतदाताओं की निर्वाचन आयोग को तलाश

नई दिल्ली, 21 जुलाई (ब्यूरो)।

में 29.62 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके फार्म

आयोग को नहीं मिले और लगभग 43.93 ऐसे भेजा है। मतदाता है, जो कि अपने आवासीय पते पर बिहार में निर्वाचन आयोग को 73.55 नहीं मिले हैं। इस मतदाताओं की सूची वे भी अपने जिलाध्यक्षों और 1.5 लाख लाख मतदाताओं की तलाश हैं। इन मतदाताओं निर्वाचन आयोग ने तैयार की है और इस सूची को राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को

आयोग के मुताबिक यह सूची राज्य के सभी वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से किसी भी मतदाता मतदाताओं में से मृत मतदाता 1655407, आयोग ने सभी दलों से अपील की है कि प्रमुख 12 राजनीतिक दलों को भेजी गई है। का नाम नहीं छूटे। आयोग के मुताबिक अब स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद प्रतिनिधियों से संपर्क करे और इन मतदाताओं राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करना की पहचान में आयोग का सहयोग करे। है ताकि एक अगस्त 2025 को जारी होने

अनुपस्थित पाए गए हैं। जो मतदाता अपने मतदाता 750742 और 11484 मतदाता ऐसे हैं, आवास पर अनुपस्थित पाए गए हैं, उन जिनका पता नहीं चल पा रहा है।

तक कुल 4392864 मतदाता अपने आवास पर 1975231, एक से अधिक जगह पर मिले

चीमानंकसन इन्वेस्टनेंट एंड फाइनेंस क्येगी तिनिटेड

#### किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानौता (सहारनपुर)

निविदा सुचना

मिल समिति द्वारा पेसई सन्न 2025-26 हेतु ई-टेप्डर के माध्यम से 1- Supply, Erection & Commissioning of 1750 Kg/Charge Fully Automatic New Batch Type Centrifugal Machine for Curing of A-Messcuite 2- Supply of 1500/30° New Continuous Centifugal हेत् दिनांक 22.07.2075 को साथ 6:30 बजे तक री ई-निविदाय आमंत्रित की जाएगी, जिसके लिए निविद्या प्रपन्न रुपये 590.00 (कर सहित) तथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बँकर चेंक / आर.टी.जी.एस. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.. सहारनपुर के पक्ष मं जमा कराना अनिवार्य है। यथा आवश्यक निगोसिएशन भी किया जाएगा। निविदा की नियम एवं शर्ते ई—फॉर्म, घरोहर धनराशि आदि की विस्तारित जानकारी www.etender.up.nic.in तथ www.upsugarled.org से डाउनलोड किये जा सकते हैं। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण प्रधान प्रबन्धक बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास स्रक्षित रहेगा।

### मिलट्री अस्पताल फतेहगढ़ उत्तरप्रदेश

कमान अधिकारी मिलट्री अस्पताल फतेहगढ उत्तरप्रदेश की ओर से सूचित किया जाता है कि अस्पताल परिसर में वेट कैन्टीन के आवंटन हेतु केवल इच्छुक युद्ध विधवाओं, सैनिक विधवाओं, पूर्व सैनिक तथा विकलांग सैनिक अपना आवदेन कमान अधिकारी मिलट्टी अस्पताल फतेहगढ़ उत्तरप्रदेश पिन-900427 के पते पर भेज सकते है। आवदेन की अंतिम तारीख विज्ञापन से 20 वें दिन तक मान्य होगी। उसके बाद मिलने वाले आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे। अधिक जानकारी के लिये इस अस्पताल के मुख्य कार्यालय में सम्पर्क करे।

प्रपत्र सं. 1

ऋण वसली न्यायाधिकरण, लखनऊ

(उत्तरं प्रदेश का अधिकार क्षेत्र)

वसूली आधिकारी का कार्यालय

800/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास,

बीआरसी नं. 794/2024 ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1983 की धारा 29 के साथ पठित आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय

 मैसर्स औम एंटरप्राइजेंज, इसके स्वामी श्री दीपक मिश्रा के माध्यम से, जिनका मूल व्यवसायिक कार्यालय वुकान संख्या 2, मिश्रा कॉम्प्लेक्स, 60 फिटा रीड, जानकीपुरन, लखनऊ— 226021, उत्तर प्रवेश में रिधत है।

 श्री चीपक मिश्रा पुत्र श्री प्रेम कुमार मिश्रा, निवासी मकान संख्या 4/136, अमरपहली बीजना, शनिदेव मंदिर के पास, लखनऊ - 226003, उत्तर प्रदेश। अन्य पता यहां पर भी : मकान खसरा सं 33, रीदपुर जागीर, 60

3. श्रीमती कथा मिश्रा पानी श्री दीपक मिश्रा निवासी मकान खसरा न 33. सैदपुर जागीर 80 फिटा रोड. जानकीपुरम एक्सटेशन, लखनक- 226021, उत्तर प्रदेश। जन्य पता यहां पर मी : 645 सी / 018, आयुष विहार,

 उपर्युक्त प्रकरण में इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित अतिम आवेश विनांक 23.04.2024 के अनुसार, यह आव. श दिया जाता है कि प्रमाणपञ्चारक बैंक मूल आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात् 12.11.2020 से ऋण के पूर्ण रूप से चुकता होने पर और लागतों के सफल होने तक रु. 28,43,246,61 (रुपये अट्टाईस लाख इकता.

हिस हजार दो सो छियालीस और इकसट पैसे मात्र) की एक राशि; 10 प्रति वर्ष की दर से बकाया और भविष्य के व्याज सहित, बसूलने का हकदार है और एतदहारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के विरुद्ध एकपकीय

2 आपको एतदवारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर भूगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें

3 आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप 26.08.2025 को या इससे पहले शपवपत्र पर परिसंपत्ति

4. आपको एतहवारा आदेश दिया जाता है कि आप 26.08.2025 को प्रांत 10.30 वजे अघोहरताशरकर्ता के

उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित लागत का भूगतान करना होगा

· To. 31,000 = 00

वावारहित

दाबारहित

दावारहित

दावारहित

विफल होने पर ऋण वसूली तथा दिवालिया अधिनियम 1993 के अनुसार वसूली की जाएगी।

अन्य पता यहां पर भी : 845 सी / 018, आयुष विहार, जानकीपुरम, लखनऊ- 226021

फिटा रोड, जानकीपुरम एक्सटेशन, लखनऊ- 226021, उत्तर प्रदेश।

अनुसूची के नियम-2 के अंतर्गत सूचना

विरुद्ध मैसर्स ओम एंटरप्राइजेज तथा अन्य

सप से अनुमति दी जाती है।

आवेदन शुक्क

अविवन्ता मुल्क

पत्र प्रकलान शुल्क

आज 3 अप्रैल 2025 की मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

के विवरण घोषित करें।

समध उपस्थित हो।

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिनिटेड

कमान अधिकारी मिलट्टी अस्पताल फतेहगढ

प्रमाणपत्र देनदार



#### उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी उम्मीद का खाता (एक अनुसूचित वाणिन्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच - 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी-221 105।

#### सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अंतर्गत अचल संपत्ति के लिए कब्जा सुचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभृति) हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें उता नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के मीतर राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित ऋणधारकों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, प्रत्येक खाते के समक्ष उठिलखित तिथियों पर नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा सावधान किया जाता है कि वे सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और इन परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रभार के अधीन होगा, जो नीचे दिए गए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशियों और उन पर ब्याज के लिए होगाः।

नीचे वर्णित उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (B) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क.	खाते का नाम	ज्यारकर्तां / सह-ज्यारकर्ताः,	मांग सूचना	कब्जे की	डिमांड नोटिस की तिथि
सं		बंधककर्ताः और गारंटर का नाम	की तिथि	तिथि	पर बकावा राशि
1	1362850000 008109	श्री पवन कुमार पांडें (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्रीमती अर्चेना पांडे (सह-उधारकर्ता) श्री इंद्रेश पांडे (सह-उधारकर्ता)	25/04/2025	17/07/2025	25/04/2025 तक सच्चे 15,43,606.66/—

संपत्ति / संपत्तियों का विवरण (संपत्ति के सभी भाग जिसमें शामिल हैं): आवासीय भूखंड का वह हिस्सा आराजी संख्या 9 मील क्षेत्रफल 0.008 हेक्टेयर राजस्य ग्राम– बढ्ईपुरवा टप्पा कटौरा परगना सिलहट, तहसील सदर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश–274203 में स्थित। सीमा: पूर्व: लाल जी की भूमि। पश्चिम: 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क। उत्तर: रमावती व अन्य की भूमि। दक्षिण: कालिदी देवी की भूमि।

V THE TOTAL OF THE	हस्ता/-
दिनांकः 22/07/2025	(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः वाराणसी	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



जीटी रोड, खतीली मुजापफरनगर (यूपी)-251201

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुकोद 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियाँ/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखाँ पर नोटिस की तारीख वत गोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर सोंवेदा दर और ब्याज , वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग गोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी न खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 17.07.2025 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से वह चेतावनी दी जाती है कि वें . उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर सर्विदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चीजें के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद मुगतान की तारीख , अगर कोई हो , की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देव बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुक्क आदि, भुगतान की तिथि तक देव राशि के साथ देव है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आसंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में स्टकित संपति को म्नाते हैं

∌0 ऋणी / बंधककर्ता व स0 गारन्टर का नाम व पता		मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कल्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
<ol> <li>श्री राजू पुत्र रित राम निवासी बेरकली नेकपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250223 (इसके बाद उधारकर्ता के रूप में संदर्भित), और श्री चरण सिंह पुत्र चंदर मान सिंह निवासी मकान नंबर 620 ग्राम मुताफारिक, नई बस्ती, खतौली, मुजपफरनगर, उत्तर प्रदेश 251201 (इसके</li> </ol>	स्वामीः श्री सजू पुत्र श्री रित राम  1. स्थान/पताः प्लॉट संख्या ई 324, अशोक विहार, आवास विकास परिषद, खतीली, उत्तर प्रदेश—251201 सीमाऐं:— पूर्व प्लॉट संख्या ई 323, परिवम प्लॉट संख्या ई 326, उत्तरः रास्ता 6 मीटर, दक्षिण प्लॉट संख्या ई 321  2. स्थान/पताः प्लॉट संख्या ई 325, अशोक विहार, आवास विकास परिषद	अनुसार बकाया राशि रू 8,87,992.82 दिनांक 27.11.2024 से + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	17.07.2025	
निवासी 134 के मुतकारिक, 1 मूलवंद विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश— 251201 और श्री संजू कुमार पुत्र श्रीचंद, निवासी वार्ड नंबर 10, खतौली, मूलवंद विहार,	सीमाएँ:— पूर्व ज्ञान सिंह का प्लॉट संख्या 69, पश्चिम: हरनयन का प्लॉट संख्या 71, उत्तर: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: किशनलाल का प्लॉट संख्या 68	अनुसार बकाया राशि रू 14,40,773.56 दिनांक 03.12.2024 से	17,07,2025	क 14,80,668.90 + अगमी व्याज + अन्य शुल्क



## बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L31300DL1985PLC022737

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार



हस्ता./- वसूली अधिकारी - ।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनक





(राशि मिलियन रुपये में है जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)

		समेकित			स्टैंडअलोन			
क्र. सं.	विवरण	समाप्त 1	तेमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
41.		30-जून-25	30-जून-24	31—मार्च-25	30-जून-25	30-जून-24	31—मार्च-25	
1	परिचालनों से कुल आय	9,416,29	8,182.34	35,166.14	9,130.70	6,778.27	32,164.82	
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाघारण मदौं से पूर्व)	500.04	445,61	2,103.87	412,61	347.64	1,716.70	
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदीं के पश्चात)	500.31	444.81	2,102.50	412.87	347.73	1,716,79	
4	कर पश्चात अवधि डेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	392.79	315.13	1,463.66	302.79	259.55	1,251.61	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	392.30	313.73	1,460.83	300.55	257.51	1,247.29	
6	इक्विटी शेयर पूंजी	782.78	637.27	782.78	782,78	637.27	782.78	
7	आरक्षिति (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है			11,907.34			11,050.95	
8	आय प्रति शेयर (रुपये 5/- प्रत्येक) #							
	बेसिक एवं डाइल्यूटेड	2.51	2.37	9.73	1.93	2.04	8.42	
	ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यहास तथा एमोर्टाइजेशन से पूर्व)	744.55	622.43	2,782.13	612.32	466.94	2,194.80	

# तिमाही हेत् वास्तविक, वार्षिकीकृत नहीं।

#### टिप्पणीः

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 21 जुलाई, 2025

 उपरोक्त 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए अलेखापरीक्षित स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का एक अंश है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए पूर्ण वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, यानी www.nseindia.com और www.bseindia.com, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध तथा कंपनी की वेबसाइट – www.bansalwire.com पर भी उपलब्ध हैं।

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए अरुण गुप्ता अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन : 00255850

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : एफ-3, मेन रोड, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 फोनः 011-46666750, ईमेलः Investorrelations@bansalwire.com, वेबसाइटः www.bansalwire.com



पिनीक : 17-07-2026

ब्लॉक

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड **जिपरित कार्यातव :** चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट.

गिंडी, चेन्नई— 600 032

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ३ के साथ पठित धारा १३(१२) े तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांग सूचनाएं निम्नांकित तिथि पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थीं, जिनमें उन उधारकर्ताओं (जिनके नाम तथा नीचे स्तंभ में उल्लेखित हैं) को उक्त सूचना में उल्लेखित बकाया राशि का राशि पर निर्धारित ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि निम्न वर्णित उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके है अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सामान्य ढंग से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न प्रदर्शित स्तंभों में विवरणित संपत्ति का यहां प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को एतदद्वारा यहां इसमें नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ ऐसा कोई भी लेन–देन, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकित एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेत मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभत परिसंपत्तियों को ऋण से मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1) के अंतर्गत]

करण साता संख्या HL29AGR000089463  1. भी / भीमती गीमत मासपाम  2. भी / भीमती गीमत मासपाम  2. भी / भीमती भीमती पाम पाता : विवादी विवादी भागा, रेसवे काटक के पात स्थाप मासपाम  3. भी भीमती भी मोती पाम पाता : विवादी विवादी भागा, रेसवे काटक के पात स्थाप मासपाम  3. भी भीमती भीमती भीमती भागा, रेसवे काटक के पात स्थाप मासपाम  3. भी भीमती भीमती भीमती भागा सेवाव काटक के पात स्थाप मासपाम  3. अग्रामा स्थाप मासपाम  4. अग्रामा स्थाप मासपाम  5. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  5. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  5. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छोयासठ मात्र)  6. अग्रामा / (रुपये तेईस लाख तेंसठ सो स्थाय तिहत्तर हजार प्रते हिल्ल सो सौ छोयासठ सो सौ	स्थानकर्या /ओं के न्यम और पर्व और ऋम स्थाता संख्या	F 54	बकावा राश्चि	अवज्ञ चंपरि का विक्रण्य	व्यविग्रहण की तिथि
	<ol> <li>श्री/श्रीनदी गोपाल मामपाम</li> <li>श्री/श्रीनदी केरी गवेती पन</li> <li>पदा : विचपुरी विचपुरी आगरा, रेसचे फाटक के पाद,</li> <li>श्रापत, एतार प्रवेश — 283108</li> <li>श्रापत पदा वहां पर भी : संपति को अभिवेक भाग कॉलोनी,</li> </ol>	13-05-2025	(रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ मात्र) 12-05-2025	जो मकान खसरा संख्या 175 पर, प्लॉट संख्या 15, अभिषेक धाम, मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला – आगरा, उत्तर प्रदेश, 283105 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– रोड, पश्चिम– प्लॉट संख्या 33, उत्तर– प्लॉट	(धनिप्रकृष)

#### युरोटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – परिसमापनाधीन

U74900TG2008PTC060157

#### ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिसमापक ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो है जहां है'', ''जो कुछ भी है आधार'' और ''कोई रिकॉर्स नहीं' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से गोइंग कन्सर्न आधार पर यूरोटस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-परिसमापन (''ईआईएल''/''कॉर्पोरेट देनदार'') या सामृहिक आधार पर कॉर्पोरेट देनदार की चल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित कर रहा है।

ईआईएल के पास एडिशनल सिन्नर इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, ग्राम मुसलगांव, तालुका सिन्नर, जिला नासिक, महाराष्ट्र में एक निर्माणाधीन सीमेंट विनिर्माण सयंत्र है और कॉर्पोरेट देनदार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 1. एडिशनल सिन्नर इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, मुसलगांव, सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र में 36.37 हेक्टेयर उप-पड़ा भुखंड।
- 2. 1.6 एमएमटीपीए क्षमता (4.95 एमएमटीपीए तक विस्तार योग्य) की निर्माणाधीन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, जिसका 80-85 प्रतिशत पुरा होने का अनुमान है।
- 3. नई दिल्ली में किराए के कार्यालय में कार्यालय उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्स्चर।

परिसंपत्ति विवरण

ई-नीलामी के बारे में महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:

327	0.6100	1	SZSKOLINICZEJ SKOJECE ZAKISTINICZEJ ZAKISTINICZEJ.				
ब्लॉक ए ब्लॉक बी		युरोटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-परिसमापनाधीन की गोइंग कन्सर्न आधार पर बिक्री	100,00,00,000	10,00,00,000			
		प्लांट साइट और नई दिल्ली में कार्यालय में स्थित कॉर्पोरेट देनदार की सभी चल परिसंपत्तियां	60,00,00,000	6,00,00,000			
क्र.सं.		विवरण	ब्यौरा				
1.	ऑक्शन पोर्टल खुलने की तिथि		22 जुलाई, 2025				
2.	यथोचित उध्यम और साइट विजिट की अंतिम तिथि		22 अगस्त, 2	025			
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि		22 अगस्त. 2025				

ई-नीलामी तिथि एवं समय 25 अगस्त, 2025 2.00 बजे से 3.00 बजे तक ई-ऑक्शन पोर्टल की वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home संभावित बोलीदाताओं को एक वचनपत्र (प्रक्रिया ज्ञापन में संलग्न प्रारूप) प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे दिवाला और

शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (''कोड'') की धारा 29ए के तहत लागू सीमा तक किसी भी अपात्रता से नहीं जुड़े हैं और यदि किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाते हैं तो जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए +91 88285 76197 पर कॉल करें या cirp.eurotas@gmail.com पर ईमेल करें।

कृते युरोटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - परिसमापनाधीन हजेफा फाखरी सितबखान, परिसमापक IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115 एसाइनमेंट के लिए अधिकृत 30 जून 2026 तक वैध huzefa.sitabkhan@gmail.com, cirp.eurotas@gmail.com

KAMA Holdings

आरक्षित मृल्य

धरोहर जमा राशि

तिथि: 22 जुलाई, 2025

स्थान: मुंबई

दिनांकः 21.07.2025

स्थानः गुरूग्राम

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड (सीआईएन: L92199DL2000PLC104779)

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 और 237, द्वितीय तल, मयूर विहार प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज । एक्सटेंशन, दिल्ली –110091 दुरभाष संख्याः (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400 फैक्सः (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500

र्इमेलः info@kamaholdings.com, वेबसाइटः www.kamaholdings.com

#### वार्षिक आम बैठक और ई-वोर्टिंग की सूचना

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 13 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और लिस्टिंग विनियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022, 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09 / 2023 दिनांक 25, सितंबर, 2023 और 09 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा जाता है), और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, 07 अक्टूबर, 2023 और 03 अक्टूबर, 2024 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' कहा जाता है), 30 मई, 2025 की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kamaholdings.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और ई—वोटिंग एजेंसी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट https://evoting.nsdI.com पर पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को 25वीं वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है और सूचना में उल्लिखित कार्य एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई दूरस्थ ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। सदस्य निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:--

- क. दुरस्थ ई-वोटिंग निर्देश और वार्षिक आम बैठक के दिन डीमैट मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा ई-वोटिंग का तरीका, और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वार्षिक आम बैठक की सूचना का एक अभिन्न अंग है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.kamaholdings.com और
- ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया गया है। ख. सदस्यों के रिमोट ई-वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तिथि (अर्थात रिकॉर्ड तिथि), बुधवार, 6 अगस्त, 2025 को कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि (अर्थात बुधवार, 6 अगस्त, 2025) तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com
- पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। **ग.** रिमोट ई—वोटिंग पोर्टल रविवार, 10 अगस्त, 2025 को सुबह 9:00 बजे से मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को शाम
- 5:00 बजे तक खुला रहेगा। ऊपर उल्लिखित निर्धारित समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी।
- **घ.** बैठक के दौरान रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं, जो सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है।
- ई. ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी शिकायत सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com, टोल-फ्री नंबर 18001020990 और 1800224430 पर भेजी जा सकती है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (''७।फे'') को भी

बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य 25वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वार्षिक आम बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम

घोषित होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.kamaholdings.com और NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किए जाएँगे। परिणाम तुरंत संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड को भी भेजे जाएँगे।

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए

एकता माहेश्वरी

पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव